

By E-filing

REF:TEIL:SE:

Date: 2nd August, 2024

BSE Limited P.J. Tower, Dalal Street, Fort, MUMBAI - 400 001 Thru: BSE Listing Centre	National Stock Exchange of India Ltd., Exchange Plaza, Bandra-Kurla Complex, Bandra (E), MUMBAI - 400 051 Thru: NEAPS
STOCK CODE: 532356	STOCK CODE: TRIVENI
Sub: Newspapers advertisement pertaining to Unaudited Financial Results for Q1 FY25 ended June 30, 2024	

Dear Sirs,


Pursuant to Regulations 47 of the SEBI (LODR) Regulations, 2015 as amended, we enclose copies of the newspapers advertisement pertaining to the unaudited financial results of the Company for the Q1 FY25 ended on June 30, 2024 published in the Business Standard (English & Hindi) on 2nd August, 2024.

This is for your information and record.

Thanking you,

Yours faithfully,

For Triveni Engineering & Industries Ltd.,


GEETA BHALLA
Group Vice President &
Company Secretary
M.No.A9475

Encl: As above

India to take 75 years to reach quarter of US GDP: World Bank

SHIKHA CHATURVEDI
New Delhi, 1 August

India will take 75 years to reach a quarter of the United States' GDP at the current rate, according to a new World Bank report that provides a comprehensive roadmap to enable developing countries to escape the "middle-income trap".

The report titled 'World Development Report 2024' highlights a challenge to Prime Minister Narendra Modi's aspiration to transform the country into a developed economy by 2047, or achieve high-income status within a generation. It also reveals that over 100 countries, including India, China, Brazil, and South Africa, face significant challenges in attaining high-income status in the coming decades.

In an approach paper summarising its vision for 'Viksit Bharat', NITI Aayog last week said India needed to grow at a sustained pace of 7-10 per cent for 20-30 years to escape the middle-income trap and become a developed nation with a per capita income of \$18,000 per annum and



ILLUSTRATION: BINAY SINHA

TACKLING THE TRAP

▶ Economic growth in middle-income countries, including India, is decelerating and insufficient to catch up with high-income nations

▶ Firms in middle-income countries show limited growth compared to those in high-income countries

▶ World Bank recommends a "3i strategy"—investment, infusion, and innovation—to escape the "middle income trap"

the size of a \$30 trillion economy by 2047. "The GDP would have to grow 9 times from today's \$3.36 trillion and the per capita income would need to rise 8 times from today's \$2,392 per annum," the government's think tank said after its 9th Governing Council meeting attended by chief ministers and lieutenant governors.

According to the World Bank, economic growth in middle-income countries, including India, is not accelerating. In fact, it is slowing

down as incomes increase, with the trend becoming more pronounced each decade, the report said.

"The observed rates of economic growth in middle-income countries do not exceed those in high-income countries by the margins needed to catch up in one generation — or even two or three," it said.

Indermit Gill, Chief Economist at the World Bank, noted that many middle-income countries continue to rely on outdated strategies from the last century, focusing primarily

on policies designed to expand investment. "If they stick with the old playbook, most developing countries will lose the race to create reasonably prosperous societies by the middle of this century," he said.

The report used estimates from the World Bank's Long Term Growth Model to suggest that if key drivers of economic growth such as investments in human capital, total factor productivity, labour force participation, and the allocation of economic output to public and private invest-

ment continue along with recent and historic trends, most middle-income countries are likely to face significant slowdowns between 2024 and 2100.

The report further revealed a "flat and stay" dynamic in firms in India, Mexico, and Peru, where a company that operates for 40 years typically doubles in size. In contrast, a firm that survives that long in the US will grow seven-fold, highlighting weaker forces of creation in middle-income countries. Additionally, in line with this dynamic, firms in India, Mexico, and Peru often remain microenterprises: nearly nine-tenths have fewer than five employees, and only a small fraction employ 10 or more.

"The longevity of undersize firms — many of them informal — points to market distortions that keep enterprises small while keeping too many in business," the report said.

The report introduces a "3i strategy" for achieving high-income status, outlining the need for two distinct transitions during the middle-income phase. Initially, countries must move from a "1i strategy," focused solely on accelerating investment, to a "2i strategy" that combines investment with infusion bringing in and disseminating technologies from abroad. Once this transition is accomplished, the report finally suggests countries adopt a "3i strategy," which emphasises innovation.

PARIS 2024 OLYMPICS

MEDALS TALLY

Country	Gold	Silver	Bronze	Total
1 China	11	7	3	21
2 France	8	10	8	26
3 Japan	8	3	4	15
4 Australia	7	6	4	17
5 USA	6	13	12	31
42 INDIA	0	0	3	3



Swapanil Kusale won bronze, India's first medal in the 50m 3 Positions at the Paris Olympics. In doing so, he redeemed himself after the heartbreak at last year's Asian Games. It took the country's tally in this edition to three, all bronze in shooting

PHOTO: PTI

SEN WINS ALL-INDIA CLASH

Lakshya Sen advanced to the quarterfinals at the expense of compatriot H S Prannoy in the men's singles badminton event, holding out hope of a medal in the racquet sport. Satwiksairaj Rankireddy and Chirag Shetty's Olympic dreams came to an end after a heartbreaking three-game loss in the men's doubles quarterfinals.

Fintech & banking apps: Modern-day data miners in your pocket

ASHLI VARGHESE
New Delhi, 1 August

More than 70 per cent of the financial technology (fintech) and banking applications (apps) analysed in a Reserve Bank of India report have access to crucial user information such as media and storage on communication devices and can track their location.

Calling them "most sensitive permissions", the Report on Currency and Finance highlighted that fintech apps often collect personal data, potentially invading users' privacy.

The recent report for 2023-24, released on Monday, analysed 339 fintech and banking apps listed on the Google Play Store.

To mitigate this issue, the Store evaluates the data and privacy policies of banks and fintech companies before granting app permissions, the



UNLOCKING


Data permissions sought by bank and fintech apps in India

Location	Share (in %)
Photos/media/ files	73.5
Storage	74.6
Phone	63.7
Device ID and call information	61.1
SMS	41.3
Contacts	41.9
Wi-Fi connection information	73.2

Note: The categorisation may not be mutually exclusive and certain permissions may be necessary for app functionality for other functions being provided by the app. The analysis covers 181 fintech apps and 158 banking apps. Source: RBI Report on 'Currency and Finance'

ACROSS REGIONS

Share of FinTech apps seeking permission to access users' data (in %)



Note: The analysis covers 40 apps in case of the US and the EU and 181 apps in the case of India. Source: RBI Report on 'Currency and Finance'

report said.

Nearly 73 per cent of these apps tracked user location, while over

three-fourths sought data permissions for users' photos, media, files, and storage and requested access to

WiFi connection information.

Mobile wallets were noted to request the most sensitive permis-

sions. Fintech apps involved in digital lending may also offer payment services, which might lead them to use permissions that are typically not recommended for digital lending apps, the report pointed out.

Indian fintech apps are more likely to request permissions for access to phones, cameras, device IDs, call information, location tracking, and SMS data compared to their counterparts in the US and the European Union (EU).

The comparative analysis covered 40 apps each for the US and the EU and 181 apps in India, assessing the data safety practices of fintech apps in these regions.

Although Indian apps are better placed in sharing data with third parties, they lag behind the US and the EU in matters like data encryption and the choices provided to users to request the deletion of data.

INDIA EVENT CALENDAR

Golf (Men's Individual Stroke Play; Day 2) Gaganjeet Bhullar and Shubhankar Sharma 12:30	Rowing (Men's sculls; Finals D) Balaraj Panwar 13:00	16:45 Badminton (Men's singles; Q/F) Lakshya Sen 18:30
Shooting (25m Pistol Women's Qualification Precision) Manu Bhaker and Esha Singh 12:30	Archery (Mixed Team) Ankita Bhajan and Dheeraj Bommadevara 13:19	Sailing (Men's Dinghy) Vishnu Saravanan 19:05
Shooting (Skeet Men's Qualification; Day 1) Anant Jeet Singh 13:00	Judo (Women's 78kg) Tulika Maan 13:30	Athletics (Women's 5000m; Round 1) Ankita and Parul Chaudhary 21:40
	Sailing (Women's Dinghy) Nethra Kumanan 15:45	Athletics (Men's Shot Put Qualification) Tajinderpal Singh 23:40
	Hockey (Men's) India vs Australia	

Punjab & Sind Bank
(A Govt of India Undertaking)
H.O. Premises Department
Sector 32, Gurugram, Haryana - 122001
E-mail: ho.premises@psb.co.in

Where service is a way of life

Tender Notice

Bank invites bids from eligible service providers on Government e-Marketplace (GeM) for rendering "Housekeeping and Facility Management Services at Bank's Staff Training College (STC), Sector-3, Rohini, Delhi-110085."

Last date of submission of bids is 21.08.2024.

For further details, please visit GeM portal.

Date: 01.08.2024 Assistant
Place: Delhi General Manager

पंजाब नैशनल बैंक **punjab national bank**
... परसेरा का प्रतीक ... the name you can BANK upon

DATA PRIVACY & MANAGEMENT DIVISION, HEAD OFFICE, PLOT NO. 5, SECTOR-32, GURUGRAM, HARYANA-122001

NOTICE

KIND ATTENTION OF ESTEEMED CUSTOMERS OF PNB!!!

"Dear Customers,
As per RBI guidelines, KYC updation for all customers is mandatory. If your account has become due for KYC updation as of 31.03.2024, you are requested to get your KYC updated through PNB ONE/IBS/registered e-mail / post or in person visit to any branch by 12.08.2024. Non updation may lead to restriction of operations in your account"

IFCI LIMITED
अई एफ सी आई लिमिटेड
(A Government of India Undertaking)

Regd. Office: IFCI Tower, 61 Nehru Place
New Delhi-110019
Tel: 011-41732000
Website: www.ifcltd.com
CIN : L74899DL1993GOI053677

APPENDIX-IV A
[See proviso to rule 8(6)]

SALE NOTICE FOR SALE OF IMMOVABLE PROPERTIES

E-Auction Sale Notice for Sale of Immovable Assets under the Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 read with proviso to Rule 8(6) of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002.

Notice is hereby given to the public in general and in particular to the Borrower/Mortgagor and Guarantor(s) that the below described immovable property mortgaged/charged to the Secured Creditor, the symbolic possession of which has been taken by the Authorised Officer of IFCI Limited (Secured Creditor), will be sold on "As is where is", "As is what is", and "Whatever there is" basis on 04/09/2024, for recovery of Rs. 37,79,35,239/- as on 15/07/2024 (interest calculated up to 14/07/2024), together with further interest at the contractual rates w.e.f. 15/07/2024 along with cost, charges, expenses & other debts, due to IFCI Limited (Secured Creditor) from CEDAR INFONET PRIVATE LIMITED (Borrower) and GOLF TECHNOLOGIES P.LTD. (Mortgagor), and Guarantors. The consolidated reserve price shall be Rs.11.01 crore and the Earnest Money Deposit (EMD) shall be Rs.1.101 crore.

Description of the Immovable Property

All that pieces and parcels of Lands, comprised in and forming part of property detailed as hereunder:

Description of Property/Secured Assets	Reserve Price
All that pieces and parcels of land or ground hereditaments and premises situated lying and being in respect of plot no. 159, in block -D admeasuring 621.32 sq. mts. Situated in Okhla Industrial Area, Phase-I, New Delhi executed in favor of IFCI Ltd. creating exclusive charge by M/s Golf Technology P. Ltd. together with all buildings, P&M, structures, Furniture, Fittings, Fixtures erection, etc. constructed thereon.	Rs.11.01 crore

There are no known encumbrance(s) with respect to the above-mentioned immovable property.

For detailed terms and conditions of the sale, please refer to the link provided in IFCI Ltd. (Secured Creditor's) website i.e. www.ifcltd.com

Date : 02.08.2024
Place : New Delhi

Sd/-
Authorised Officer
IFCI Limited

NHPC Limited
(A Government of India Enterprise)

CIN: L40101HR1975GOI032564
Regd. Office : NHPC Office Complex, Sector-33, Faridabad-121003 (Haryana)
E-mail: companysecretary@nhpc.nic.in, EPABX No. : 0129-2588110 / 2588500
Website: www.nhpcindia.com

INFORMATION REGARDING 48th ANNUAL GENERAL MEETING TO BE HELD THROUGH VIDEO CONFERENCE (VC) OTHER AUDIO VISUAL MEANS (OAVM), BOOK CLOSURE DATES AND FINAL DIVIDEND

- Members may please note that the 48th Annual General Meeting (AGM) of the Company will be held through Video Conference (VC) Other Audio-Visual Means (OAVM) on **Wednesday, 28th August, 2024 at 02:30 P.M. (IST)**, deemed to be held at the Registered Office of the Company, in compliance with all the applicable provisions of the Companies Act, 2013 (the Act), the Rules made thereunder and the Securities and Exchange Board of India (SEBI) (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 (LODR), read with General Circular No. 9/2023 dated September 25, 2023 & other circulars on the matter issued by the Ministry of Corporate Affairs (MCA) and SEBI Circular No. SEBI/HO/CF/DOPD-POD-2/P/CIR/2023/167 dated October 07, 2023 to transact the businesses that will be set forth in the Notice of the AGM.
- In compliance with the relevant circulars, the Notice of the AGM and Annual Report 2023-24 will be sent only through electronic mode to those members whose email addresses are registered with the Company/ Registrar and Share Transfer Agent (RTA) Depository Participant(s). Members who have not registered their e-mail address are requested to register the same in respect of shares held in electronic form with the Depository through their Depository Participant(s). In respect of shares held in physical form, Members may register their email id by writing to the Company/RTA of the Company.
- The Notice of the AGM and Annual Report 2023-24 will also be available on the Company's website at www.nhpcindia.com, on the website of Stock Exchanges i.e. BSE Limited at www.bseindia.com and National Stock Exchange of India Limited at www.nseindia.com, and on the website of e-voting service provider i.e. M/s National Securities Depository Limited (NSDL) at www.evoting.nsdl.com.
- Pursuant to the provisions of Section 91 of the Act read with relevant rules and Regulation 42 of SEBI (LODR), the Register of Members and Share Transfer Books of the Company will remain closed from **Tuesday, 13th August, 2024 to Wednesday, 28th August, 2024** (both days inclusive). The Board of Directors in their meeting held on 17th May, 2024 has recommended a final dividend of Re.0.50/- per equity share of face value of Rs.10/- for the financial year 2023-24, subject to approval of shareholders at the ensuing 48th AGM. The Company has fixed **Monday, 12th August, 2024** as "Record Date" for determining the entitlement of members to receive final dividend, if declared at the AGM. The members, whose names appear in the register of member/ list of beneficial owner as on the record date, will be entitled to receive final dividend.
- Members who hold their shares in dematerialized form and want to provide/change/correct the bank account details should send the same to their concerned Depository Participant and not to the Company. Members are also requested to give the MICR Code of their bank to their Depository Participant. While making payment of dividend, the RTA of the Company is obliged to use only the data provided by the Depositories, in case of such dematerialized shares.
- Members who are holding shares in physical form are advised to submit particulars of their bank account, viz. name and address of the branch of the bank, MICR code of the branch, type of account and account number to RTA of the Company. Members are also requested to opt for the Electronic Clearance System (ECS) mode to receive dividend on time. SEBI vide its Master Circular No. SEBI/HO/MIRSD/POD-1/P/CIR/2024/37 dated May 07, 2024 has mandated that w.e.f. April 1, 2024, dividend to members holding shares (in physical form) shall be paid only through electronic mode. For further details, please visit website of the Company i.e. www.nhpcindia.com.
- Manner of casting vote(s) through e-voting:
 - In terms of Section 108 of the Act read with Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014, the Resolutions for consideration at the 48th AGM will be transacted through remote e-voting (i.e. facility to cast vote prior to the AGM) and also e-voting during the AGM, for which purpose the Company has engaged the services of National Securities Depository Limited (NSDL). The manner of remote e-voting prior to the AGM or through e-voting system during the AGM by the members holding shares in dematerialized mode, physical mode and for the members who have not registered their email addresses will be provided in the Notice of the AGM. The details will also be made available on the website of the Company.
 - The login credentials for casting the votes through e-voting shall be made available through the various modes as may be provided in the Notice, which will be sent through email and made available on website of the Company.

Members are requested to carefully read all the Notes set out in the Notice of the AGM and in particular, instructions for joining the AGM, manner of casting vote through remote e-voting and e-voting during the AGM.

This notice is issued for the information and benefit of all the members of the Company and in compliance with the applicable circulars of MCA and SEBI.

Contact Details of RTA are as under:

M/s KFin Technologies Limited,
Selenium Building, Tower B, Plot No 31 & 32, Financial District,
Nanakramguda, Serilingampally, Hyderabad Rangareddy, Telangana-500 032
Email: einward.ris@kfinetech.com
Tel: 040-67162222, 040-79611000
Website: www.kfinetech.com
Toll free No. 18003094001

For and on behalf of NHPC Limited
Sd/-
(Rupa Deb)
Company Secretary
Date : August 01, 2024
Place : Faridabad

Triveni
ENGINEERING & INDUSTRIES LTD.

Statement of Consolidated Unaudited Financial Results for the Quarter ended June 30, 2024

(₹ in crores, except per share data)

Particulars	3 Months ended		Year ended
	30/Jun/2024 (Unaudited)	30/Jun/2023 (Unaudited)	31/Mar/2024 (Audited)
Total Income from operations	1534.03	1432.26	6151.40
Net Profit/(loss) for the period (before tax and exceptional items)	41.76	91.00	528.99
Net Profit/(loss) for the period before tax (after exceptional items)	41.76	91.00	528.99
Net Profit/(loss) for the period after tax (after exceptional items)	30.99	67.61	395.16
Total comprehensive income for the period [Comprising Profit/(loss) for the period (after tax) and other comprehensive income (after tax)]	26.33	68.08	405.30
Equity share capital	21.89	21.89	21.89
Other equity			2879.01
Earnings per share of ₹ 1/- each (not annualised for the quarters)			
(a) Basic (in ₹)	1.42	3.09	18.05
(b) Diluted (in ₹)	1.42	3.09	18.05

Notes:

- Summarised Standalone Unaudited Financial Performance of the Company is as under :
(₹ in crores)

Particulars	3 Months ended		Year ended
	30/Jun/2024 (Unaudited)	30/Jun/2023 (Unaudited)	31/Mar/2024 (Audited)
Total Income from operations	1533.63	1431.58	6149.14
Profit/(loss) before tax (after exceptional items)	41.60	89.76	523.99
Profit/(loss) after tax (after exceptional items)	30.87	66.61	391.52
Total comprehensive income	26.21	67.08	401.66

- The above financial results include the results of Sir Shadi Lal Enterprises Limited for the period from June 21, 2024 to June 30, 2024 (i.e., for the period post becoming a subsidiary of the Company).
- The above is an extract of the detailed format of financial results for the quarter ended June 30, 2024 filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (LODR) Regulations, 2015. The full format of the financial results for the quarter ended June 30, 2024 are available on the websites of Stock Exchanges (www.bseindia.com and www.nseindia.com) and on the website of Company (www.trivenigroup.com).

For TRIVENI ENGINEERING & INDUSTRIES LIMITED
Sd/-
Dhruv M. Sawhney
Chairman & Managing Director
Date: August 1, 2024

Regd. Office: A-44, Hosiery Complex, Phase-II Extension, Noida, Uttar Pradesh - 201 305.
Corp. Office: 8th Floor, Express Trade Towers, 15-16, Sector-16A, Noida, Uttar Pradesh - 201 301.
www.trivenigroup.com | CIN : L54214UP1932PLC022174

